

विशेष रिपोर्ट

बुलियन

(मार्च 2024)



smc


moneywise. be wise.

फरवरी 2024 में सराफा की कीमतों में बदलाव (% में)



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

जनवरी-फरवरी 2024 में सराफा की कीमतों में बदलाव (% में)



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

फरवरी में, कॉमेक्स पर सोने का कारोबार काफी कम दायरे में कारोबार हुआ, क्योंकि लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों को लेकर चिंता बनी रही। सोने की कीमतों पर इस कारण भी दबाव था कि फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने माना था कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बैंक को और अधिक काम करने की जरूरत है। इसके बाद अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि फेड को ब्याज दरों में जल्द कटौती शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों को लेकर चिंता के कारण सोने का कारोबार लगभग दो महीनों तक 2,000 डॉलर से 2,050 डॉलर प्रति औंस के दायरे में रहा। सोने की कुछ सुरक्षित मांग के कारण गिरावट को सीमित करने में मदद मिली। जापान और ब्रिटेन में मंदी के संकेतों के साथ-साथ मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ गई।

आउटलुक

- सोने ने मार्च की शुरुआत उल्लेखनीय तेजी के साथ की है, जो जून तक अमेरिकी ब्याज दर में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के कारण दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष के मध्य तक मौद्रिक नीति में नरमी की उम्मीद के कारण सोने की कीमतों के लिए संभावनाएं सकारात्मक दिख रही हैं। अगर आर्थिक आंकड़ों का प्रदर्शन कमजोर रहा तो अगले तीन से चार महीनों में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं।
- केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की अधिक खरीद के कारण कीमतों को उल्लेखनीय समर्थन मिल रहा है। फेडरल रिजर्व के बैलेंस शीट निर्णयों के बावजूद, उनका ध्यान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अपने दोहरे निर्देशों को पूरा करने पर बना हुआ है।
- मध्य पूर्व से जुड़े लगातार भू-राजनीतिक जोखिम और अनिश्चितता से सोने की कीमतों में प्रीमियम बढ़ सकता है, जो उस जोखिम प्रीमियम को दर्शाता है जिससे निवेशक एक सुरक्षित-संपत्ति के लिए भुगतान करने को तैयार हैं।
- फरवरी और मार्च में मुद्रास्फीति के आंकड़ें पिछले दो वर्षों में अमेरिकी दर अपेक्षाओं के अनुरूप होने के कारण अब काफी हद तक आने वाले महीनों में कीमती धातु की कीमतों की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं।
- निराशाजनक मैनुफैक्चरिंग आंकड़ों के बाद धीमी अर्थव्यवस्था के संकेत आगे भी बढ़ सकते हैं, जिससे कीमती धातु के लिए सुरक्षित निवेश को लेकर मांग बढ़ सकती है।
- विश्लेषकों को उम्मीद है कि पॉवेल अपने रुख को दोहराएंगे कि फेड को और अधिक आश्वस्त होने की आवश्यकता होगी कि मुद्रास्फीति बैंक के 2% वार्षिक लक्ष्य की ओर वापस आ रही है।
- चीन की सरकार ने 5% या उससे अधिक वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया, जो कि अधिकांश अपेक्षाओं से अधिक है लेकिन बाजार द्वारा इसे संदेह की दृष्टि से देखा गया।
- वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों ने जनवरी में सोने के भंडार के लिए 39 टन की खरीददारी की है। तुर्की और चीन फिर से सबसे अधिक खरीदारी की जबकि बिकवाली वस्तुतः नहीं के बराबर थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 9 टन सोने की खरीददारी की। अक्टूबर 2023 के बाद से इसके स्वर्ण भंडार में पहली मासिक वृद्धि है और जुलाई 2022 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अब कुल भंडार 812 टन है।

एमसीएक्स में सोने की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

कोमेक्स में सोने की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स में चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

कोमेक्स में चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

मार्च में सोने की कीमतों के अधिक अस्थिरता के साथ 60900-66500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है और चांदी की कीमतें 70000-75500 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
 11/6B, Shanti Chamber,
 Pusa Road, New Delhi - 110005
 Tel: +91-11-30111000
 www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
 Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
 Graham Firth Steel Compound, Off Western
 Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
 (East) Mumbai - 400063
 Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
 5th Floor, Kolkata-700001
 Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
 Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रॉकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉर्पोरेट नेशनल कर्मांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहायगी एससीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एंथॉरिटी द्वारा सिक्वोरिटीज मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निषिद्ध नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विरोध कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राधिकारों की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्वैलेज एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं है और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉपरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विरोध कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉपरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या बेचने में शामिल है उसकी (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कर्मांडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौंपों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।